

पूर्वोत्तर भारत के पर्व त्योहार



पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख पर्व

लोसर

- शिवत और हिमालय क्षेत्र में रहने वाले बींदू लोसर पर्व को नववर्ष के शुभारम्भ के रूप में मनाते हैं।
- यह 'लोसर पर्व' लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और असमाचल प्रदेश में उमंग के साथ मनाया जाता है।

दोन्हित भट्टोसर

- हॉन्हित भट्टोसर का आयोजन नगालैंड के स्थाना दिवस, 1 दिसंबर को किया जाता है।
- पूरे एक सप्ताह तक नगालैंड की जनजातीय संस्कृति की रंगारंग प्रस्तुतियाँ पेश की जाती हैं।
- इस दोन्हित स्थानीय लोकनृत्य, संगीत, वाल्तुशिल्प आदि के रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

लोसूण/लोसांग

- यह पर्व सिक्किम में निवास करने वाली भूटिया और लेप्चा जनजातियों द्वारा दिसंबर माह में 'सिक्किमी नववर्ष' के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
- इसे 'नामसंगा' भी कहा जाता है।
- यह पर्व अच्छी कृपि उपज के लिये प्रकृति का आभार व्यक्त करने के लिये भी मनाया जाता है।

सागा दाता

- भगवान बुद्ध की जयती को सिक्किम में 'सागा बादा' नाम से मनाया जाता है।
- यह पर्व महात्मा बुद्ध की जयती के साथ-साथ उक्त निवास (जन प्राप्ति) और महापरिनिवारण के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है।

पिन्दू

- असम का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार विहू साल में तीन बार मनाया जाता है-
 - ✓ बोहाग या रोगाली विहू - बैशाख - मध्य अप्रैल में
 - ✓ कागोली विहू या काटो विहू - कार्तिक - मध्य अक्टूबर में
 - ✓ माघ विहू या भोगाली विहू - माघ - मध्य जनवरी में
- विहू उत्सव, असम के कृषक समुदाय व मौसम में होने वाले परिवर्तनों से निर्धारित फसल बढ़क से गरमाई से जुड़ा हुआ है।
- कृषि और मौसम में होने वाले परिवर्तनों से जुड़ा होने के कारण यह पर्व असम में रहने वाले सभी धर्मों और विश्वासों को मानने वाले लोगों द्वारा मनाया जाता है।

अविहारी गोला

- गोलाहाटी (असम) के कामाख्या मंदिर के पास मानसून के मौसम में यह पर्व मनाया जाता है।
- इस दोन्हान यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालू विवाह और सतान की कामना से आते हैं। इसे 'बूर्बं का महाकुम्भ' भी कहा जाता है।

खार्ची घूसा

- यह हर साल जुलाई-अगस्त में विपुरा में आयोजित की जाती है।
- यह विपुरा के आविवासियों द्वारा कोई जाली और वेताओं की सापूर्छिक पूजा है।
- इस समय मासूम विपुरा के आविवासी लोग अपने कुल वेताओं की पूजा करने और पुरानी संस्कृति को संजोए रहने के लिये हजारों की संख्या में एकावित होते हैं।

राजीत वेदाराडाता

- 'सार्वांग-चेत्रराजावा' मणिपुर की 'मैट्टी' जनजाति द्वारा उत्तरवर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला पर्व है।
- यह विपुरा के आविवासी लोग अपने कुल वेताओं की पूजा करने और पुरानी इसे ड्रोमों पर्व' भी कहते हैं।
- इस समय लोग 'वदमंडा', 'वदमसी' नामक सुंदर रंग विसरों परिवान पहनते हैं और उमंग की ताल के साथ बूर्घ करते हुए स्थानीय गीत गाते हैं।

वाला धिन्हा

- 'कामा धिन्हा' मणिपुर के मैट्टी ड्रोमों द्वारा जुलाई में आयोजित की जाने वाली 'रथयात्रा' है।
- यह रथयात्रा पूर्ण में होने वाली रथयात्रा के समान है।
- इस दोन्हान स्थी-पुरुष 'संकीर्तन' करते हैं। भगवान जगन्नाथ को जिस बाहन से ले जाया जाता है, उसे काग कहते हैं।

राक्कली पर्व

- नगालैंड की 'अंगामी' जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला सेक्रेनी पर्व युद्ध में जाने से पूर्व शुद्धारणा के विधि-विवाहों से जुड़ा है। इसे 'फौसामी' भी कहा जाता है।
- इस पर्व के दोन्हान बुद्ध गौव के पानी के झात के पास विधि-विवाह से स्नान करते हैं और अपने अस-शास्त्रों को भी पवित्र करते हैं।
- रियों को इसमें दिस्ता लेने की अनुमति नहीं होती है।

लुई-नगाई-नी

- 'लुई-नगाई-नी' मणिपुर में निवास करने वाली नगा जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाली कृषि से संबंधित त्योहार है।
- बस्त के आगमन के साथ इस समय नगा कृषक अपने खेतों में नए बीज बोते हैं।

- इस पर्व के समय नगा संस्कृति का जीवंत दर्शन उनके लोकांगों, नृत्यों, वेश-भूषा और छान-पान आदि में किये जा सकता है।

छी

- 'छी' असमाचल प्रदेश की जीरो वैली में रहने वाली 'अपातती' जनजाति द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला कृषि से जुड़ा हुआ त्योहार है।
- 'छी' का शास्त्रिक अर्थ है 'अनाज की कामी के समय उसकी खीरी वा उधार मारेना'।
- इस त्योहार में महिलाओं वाडन बनाती हैं तथा पुरुष इसका पान करते हैं।



चपचार कूट

- चपचार कूट मिजोरम में फरवरी-मार्च में मनाया जाने वाला कृषि से संबंधित पर्व है।
- इस समय तक इम कृषि के लिये खेत बाफ कर लिये गए होते हैं, बीजों की बुआई शुरू करने से पहले, खाली समय में यह त्योहार उमंग के साथ मनाया जाता है।
- इस दोन्हान लिये जाने वाले प्रदूष नृत्य हैं - 'दोराव', 'खुल्लम' व 'ससलमकै'।
- चपचार कूट, मिजोरम में कृषि के फसल चक्र से जुड़े तीन प्रमुख त्योहारों में से एक है, अन्य है - 'मिम कूट' और 'पावल कूट'।

पायल

- यह पूलों का त्योहार है। इसे अर्द्धिशा, विहार तथा पश्चिम बंगाल के संघाल लोग मनाते हैं।

